

18 | उचित इन्कमटैक्स की गणना कैसे करें ?

7 Zero इन्कम टैक्स का फार्मूला Formula for Zero Income Tax

नए प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए

यदि आप पुरुष/महिला/वरिष्ठ नागरिक करदाता है, आपकी वित्तीय वर्ष 2016-17 में सकल आय 7 लाख तक है तो निम्नानुसार टैक्स प्लानिंग के अनुरूप निवेश करने से आपका देय आयकर शून्य (Zero) हो सकता है –

क्र	विवरण	पुरुष	महिला	वरिष्ठ नागरिक
1	सकल आय (Gross Total Income)	7,30,000	7,30,000	7,00,000
2	U/S 24 गृह ऋण पर देय ब्याज की कटौती	(-) 2,00,000	(-) 2,00,000	(-) 2,00,000
3	80CCD(1B) नई पेंशन योजना(NPS) में निवेश	(-) 50,000	(-) 50,000	(-) 0
4	U/S 80D मेडिकलेम प्रीमियम कटौती	(-) 30,000	(-) 30,000	(-) 30,000
5	U/S 80C-GPF/PPF/NPS/LIC गृह ऋण का मूलधन, बैंक फिक्स डिपॉजिट आदि में निवेश	(-) 1,50,000	(-) 1,50,000	(-) 1,50,000
6	करयोग्य आय (Taxable Income)	3,00,000	3,00,000	3,50,000
7	आयकर में छूट U/S 87A	5,000	5,000	5,000
8	देय आयकर (Tax Payable)	Zero	Zero	Zero

Zero इन्कम टैक्स का फार्मूला

Zero इन्कम टैक्स हेतु आवश्यक निवेश की राशि = सकल आय – आयकर में छूट की मौलिक सीमा*
*(पुरुषों के लिये –2.50 लाख, महिलाओं के लिये –2.50 लाख व वरिष्ठ नागरिकों के लिये –3.00 लाख)
उपरोक्तानुसार आवश्यक निवेश की राशि मालूम होने के पश्चात निम्न योजनाओं में सुविधानुसार निवेश कर देय इन्कम टैक्स को शून्य किया जा सकता है –

धारा 80C/CCE के तहत GPF/PPF/LIC/HLP/ आदि में निवेश	– अधिकतम 1.5 लाख रु.
धारा 80CCG के तहत राजीव गाँधी इक्विटी योजना में निवेश	– अधिकतम 25 हजार रु.
धारा 80D के तहत चिकित्सा बीमा (मेडिकलेम प्रीमियम) की कटौती	– अधिकतम 30 हजार रु.
धारा 24 के तहत गृह ऋण पर देय ब्याज की कटौती	– अधिकतम 2.0 लाख रु.
80CCD(1B) नई पेंशन योजना(NPS) में निवेश	– अधिकतम 50 हजार रु.

Zero इन्कम टैक्स हेतु निवेश की राशि का रेडीरेकनर

सकल आय	आयकर में छूट की मौलिक सीमा एवं आयकर में छूट u/s 87A-5000	आवश्यक निवेश की राशि	विभिन्न योजनाओं में निवेश			देय आयकर
			NPS/PPF/LIC /FD राजीव गाँधी इक्विटी योजना में निवेश	चिकित्सा बीमा प्रीमियम	गृह ऋण पर देय ब्याज	
3,00,000	2,50,000+20,000	30,000	0	0	0	0
4,00,000	2,50,000+20,000	1,30,000	1,30,000	0	0	0
5,00,000	2,50,000+20,000	2,30,000	1,50,000	10,000	70,000	0
6,00,000	2,50,000+20,000	3,30,000	1,50,000	15,000	1,65,000	0
7,50,000	2,50,000+50,000	4,30,000	2,00,000	30,000	2,00,000	0